

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 फरवरी 2015—माघ 17, शक 1936

### मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2015

क्र. एफ-65-02-2015-तीन-नपा-276.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 22 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के माह जनवरी 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति महापौर / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिक निगम का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् महापौर/पार्षद	वार्ड क्रमांक के बारे में पार्षद हेतु अंकों में	क्रमांक के बारे में शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिक निगम, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	महापौर	-	-	कान्ता योगेश सदारंग	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	कैलाश भारती	इंडियन नेशनल कांग्रेस
3		पार्षद	2	दो	संतोष राय	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	प्रतिभा सुनील तिरगाम	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	संध्या ओमप्रकाश चौरसिया	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रामकुमारी यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छ:	सै. असगर वासु अली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	“सचिन वानखेड़े”	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	उमा सूर्यवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10		पार्षद	9	नौ	श्रीमति शीला जयलाल कुमरे (जंगली)	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11		पार्षद	10	दस	शिवराम पन्द्राम	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	रामकिशन पहाडे पिता	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	श्री स्व. शंकरलाल पहाडे	भारतीय जनता पार्टी
14		पार्षद	13	तेरह	धर्मेन्द्र मिगलानी पिता	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	किशनलाल मिगलानी.	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	“अन्नू अरोरा”	भारतीय जनता पार्टी
17		पार्षद	16	सोलह	श्रीमती गौरा ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	दीपक मिगलानी	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	वर्षा राम चन्द्र बाघ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
20		पार्षद	19	उन्नीस	अभिनय मनोज कुशवाह	भारतीय जनता पार्टी
21		पार्षद	20	बीस	दीपा हरिनारायण माहोरे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
22		पार्षद	21	इक्कीस	शिव मालवी	भारतीय जनता पार्टी
23		पार्षद	22	बाईस	राजकुमार बघेल (राजू)	भारतीय जनता पार्टी
24		पार्षद	23	तेर्इस	सरिता मनोज चौरे	भारतीय जनता पार्टी
25		पार्षद	24	चौबीस	श्रीमति ताफी/झनका यादव	भारतीय जनता पार्टी
26		पार्षद	25	पचीस	दीपा योगेश साबले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
27		पार्षद	26	छब्बीस	अजय सिन्हा	इंडियन नेशनल कांग्रेस
28		पार्षद	27	सत्ताईस	राजेश सोनी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
29		पार्षद	28	अट्टाईस	जयन्ती विकास राय	भारतीय जनता पार्टी
30		पार्षद	29	उन्तीस	रुपाली योगेश बेले	भारतीय जनता पार्टी
31		पार्षद	30	तीस	आदिल खान उर्फ लाला	भारतीय जनता पार्टी
32		पार्षद	31	इक्कीस	साधना पंकज शुक्ला	इंडियन नेशनल कांग्रेस
33		पार्षद	32	बत्तीस	भास्करराव घोरके	इंडियन नेशनल कांग्रेस
34		पार्षद	33	तेंतीस	रंजना मोरेश्वर हिवसे	भारतीय जनता पार्टी
35		पार्षद	34	चौंतीस	विजय पाण्डे “विज्ञु”	भारतीय जनता पार्टी
36		पार्षद	35	पैंतीस	रामेश्वर ठाकरे	भारतीय जनता पार्टी
37		पार्षद	36	छत्तीस	शिल्पा मनोहर घोरके	इंडियन नेशनल कांग्रेस
38		पार्षद	37	सैंतीस	महेश अजाबराव अलडक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
39		पार्षद	38	अड़तीस	जगेन्द्र अलडक	भारतीय जनता पार्टी
40		पार्षद	39	उन्तालीस	महेन्द्र कुमार भाटी पिता	भारतीय जनता पार्टी
					गोपीराम भाटी.	
41		पार्षद	40	चालीस	तरुण कराडे	इंडियन नेशनल कांग्रेस
42		पार्षद	41	इकतालीस	योगिता मनोहर गेडाम	निर्दलीय
43		पार्षद	42	बयालीस	अनिता दिनेश मालवी	भारतीय जनता पार्टी
44		पार्षद	43	तेंतालीस	आरती नितिन खंडेलवाल	भारतीय जनता पार्टी
45		पार्षद	44	चवालीस	श्रीमति सुनीता मुकेश यादव	भारतीय जनता पार्टी
46		पार्षद	45	पैंतालीस	श्रीमति पीताम्बरी राजकुमार गोनेकर	भारतीय जनता पार्टी
47		पार्षद	46	छियालीस	बबिता मनीष निर्मलकर	भारतीय जनता पार्टी
48		पार्षद	47	सैंतालीस	सोमती सिंगारे	भारतीय जनता पार्टी
49		पार्षद	48	अड़तालीस	श्रीमति लमिया अमरसिंह मरावी	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता. /-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

## अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2015

क्र. एफ-65-02-2015-तीन-नपा-277.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, पटेरा, जिला दमोह के माह जनवरी 2015 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक (1)	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित (2)	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद (3)	वार्ड क्रमांक के बारे में		निर्वाचित व्यक्ति का नाम (6)	दल से सम्बद्धता (7)
			पार्षद हेतु अंकों में (4)	शब्दों में (5)		
1	नगर परिषद्, पटेरा, जिला दमोह.	अध्यक्ष	-	-	मालती/शंकरलाल तंतुवाय	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	एक	रामचंद्र राठौर मुन्ना	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	लटोरी	भारतीय जनता पार्टी
4		पार्षद	3	तीन	कविता/उत्तमसींग	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	चार	सरस्वती/हरप्रसाद (डुम्मन)	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	पांच	रचना/मुन्ना ताम्रकार	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छ:	मधुलता/दुर्गेश सोनी	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सात	बाले अहिरवार/रतुआ	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	आठ	योगेश/नारायणप्रसाद उपाध्याय	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	आनंदरानी/रामू	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	बहीद/समशुद्धीन	भारतीय जनता पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह	वंदना/बलराम पटेल	भारतीय जनता पार्टी
13		पार्षद	12	बारह	भरतलाल ताम्रकार/लखन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	मुनी/कन्नू बसोर	भारतीय जनता पार्टी
15		पार्षद	14	चौदह	उमा/चन्द्रभान अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	बेडीलाल/संधी	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता/-

( जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.